



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 10.06.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा 500 ग्राम अवैध डोडा चूर्ण बरामद कर अभियुक्त नारद पुत्र रमेश को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 10.06.21 को थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 500 ग्राम अवैध डोडा चूर्ण बरामद कर अभियुक्त नारद पुत्र रमेश निवासी नई बस्ती भूड़ थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना मैगलगंज पर एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 600 अदद अवैध नशीली टैबलेट

अल्प्राजोलम बरामद कर अभियुक्त कलीम को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 600 अदद अवैध नशीली टैबलेट अल्प्राजोलम बरामद कर अभियुक्त कलीम पुत्र मो० सलीम निवासी पनगीखुर्द थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली सदर पर एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना पलिया पुलिस द्वारा 04 अदद चोरी के पंखे व 12 अदद पंखे के ब्लेड सहित अभियुक्त सर्वेश को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पलिया पुलिस द्वारा नौगवां स्कूल में हुई चोरी मु0अ0सं0 242/21 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त सर्वेश पुत्र बालगोविन्द नि0 बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद पंखे व 12 अदद पंखों के ब्लेड बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- 1- थाना गोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 273/21 धारा 354/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त सुरेश पुत्र हरीराम निवासी करनपुर थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- 2- थाना गोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 385/20 धारा 188/269/270/272 भादवि व 51 आपदा प्रबंधन अधि0 व 3 महामारी अधि0 व 60(2) आबकारी अधि0 में वांछित अभियुक्त शिव कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी भट्टपुरवा कालोनी थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- 3- थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 247/21 धारा 279/304ए भादवि में पुष्पेन्द्र पुत्र कन्धई निवासी कोल ढकवा थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- 4- कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 511/21 धारा 323/354एबी भादवि व 9/10 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त हरिओम पुत्र घसीटे निवासी मथुरापुरवा खम्भारखेड़ा थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- 5- कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 512/21 धारा 354कख व 9/10 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त बन्ने पुत्र फरीद निवासी हिदायतनगर थाना को0सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- 6- थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 229/21 धारा 376डी/506/120बी भादवि व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट में वांछित 05 अभियुक्तों मोहन पुत्र श्रीराम निवासी सिंगारपुर चैकी महेवागंज थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी, रूपेन्द्र पुत्र अमरजीत, हरजीन्द्र पुत्र सतनाम, सुखबीर पुत्र सतनाम व अमनदीप पुत्र गुरमेज निवासीगण ग्राम सांडा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

**अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 344 लीटर अवैध शराब,
08 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 21 अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **344 लीटर अवैध कच्ची शराब, 08 अवैध शराब भट्टी** व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद कर **21 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **20 अभियोग** पंजीकृत किए गए। आगे भी अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर गिरफ्तारी एवं बरामदगी निरन्तर प्रचलित रहेगीं। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना ईसानगर	100 लीटर	06 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना हैदराबाद	60 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना तिकुनिया	50 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना भीरा	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना खीरी	30 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना मोहम्मदी	24 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना संपूर्णनगर	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
8.	थाना कोतवाली सदर	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	344 लीटर	21 अभियुक्त गिरफ्तार